

फाइल नं. एमएमजी/241/टीएस

डाक विभाग : भारत

वरिष्ठ प्रबंधक का कार्यालय, डाक मोटर सेवा, कोलकाता-700015

ओपन मार्केट से टेक्निकल सुपरवाइजर (तकनीकी पर्यवेक्षक) का एक पद भरने के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है

वेतनमान : 7वें सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स में लेवल-6
(रु. 35400 - 112400)

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि : रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 (साठ) दिन, 17.00 बजे तक

पात्रता

उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव :

(क) उम्र सीमा : 01.07.2022 को 22 से 30 वर्ष (केन्द्र सरकार के सेवकों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष की उम्र तक)

(ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मेकनिकल/ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा और किसी ख्यातिप्राप्त ऑटोमोबाइल फर्म या किसी सरकारी कार्यशाला में दो वर्षों का व्यावहारिक अनुभव या

मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता के साथ इंटरनल कम्बशन इंजनों के निर्माण, मरम्मत या रखरखाव के लिए कुछ कारखाने या कार्यशाला में कम से कम पाँच वर्ष के लिए व्यावहारिक अनुभव। कम से कम एक वर्ष के लिए किसी शॉप का चार्ज लिए व्यक्ति या इंटरनल कम्बशन इंजनों के साथ कार्यरत इक्विपमेंट या इंटरनल कम्बशन इंजनों के कार्य से संबंधित फर्म के साथ सर्विस इंजीनियर के रूप में कार्य कर चके व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।।

ग) यह पद अनारक्षित है एवं सेवा के हित में सफल आवेदक को संभवतः पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंदर और पूरे भारत में किसी भी स्थान पर तैनाती दी जा सकती है।

चयन

प्रतिस्पर्धी ट्रेड टेस्ट के माध्यमों से चयन किया जाएगा।

परीक्षाओं की तिथि और स्थान की सूचना योग्य आवेदकों को पृथक रूप से दी जाएगी। अयोग्य पाए गए अन्य आवेदकों के संबंध में कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी।

निम्नलिखित बायो-डेटा प्रदान करते हुए आवेदन जमा की जानी चाहिए :

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| i). पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) | viii) समुदाय |
| ii) पिता का पूरा नाम | ix) शैक्षणिक योग्यता |
| iii) आवेदित पद | x) अनुभव |
| iv) स्थायी पता | xi) तकनीकी योग्यता |
| v) पत्राचार के लिए पता | xii) नागरिकता |
| vi) जन्म तिथि (ईसवी सन् में) | xi) कोई अन्य संबंधित सूचना |
| vii) उम्र (01.07. 2022 को) | |

आवेदन आवेदक द्वारा जरूर हस्ताक्षरित हो एवं इसके साथ संलग्न रहें :

1. निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियाँ आवेदक द्वारा स्व-सत्यापित रहनी चाहिए:

i) उम्र प्रमाण, ii) शैक्षणिक योग्यता, iii) तकनीकी योग्यता, iv) अनुभव प्रमाणपत्र, v) नागरिकता प्रमाणपत्र/स्थायी आवास प्रमाणपत्र या कोई अन्य प्रमाणपत्र जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, की प्रतिलिपि जो भारतीय नागरिकता को। दर्शाता है जैसे कि वोटर कार्ड, पैन कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र या राशन कार्ड।

2. हाल के पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ जो आवेदक द्वारा आरपार हस्ताक्षरित हो। एक फोटोग्राफ आवेदन फॉर्म पर चिपकाया गया हो और दूसरा आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किया जाए।

आवेदन एक लिफाफे में भेजा जाए जिसके ऊपर आवेदित पद का उल्लेख रहे एवं "वरिष्ठ प्रबंधक, डाक मोटर सेवा, 139 बेलघाटा रोड, कोलकाता-700015" को सम्बोधित रहे। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए एवं रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 (साठ) दिनों के अंदर 17.00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। संपूर्ण जानकारी के बगैर या प्रमाणपत्रों/कागजातों की प्रतिलिपियों के बगैर आवेदन या स्वयं-सत्यापन के बगैर प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि/प्रतिलिपियों के साथ संलग्न आवेदन को बिना कोई कारण या जानकारी दिये सीधे रद्द कर दिया जाएगा।

प्रबंधक
डाक मोटर सेवा
कोलकाता-700015